

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 641]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2019 — आश्विन 9, शक 1941

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 1 अक्टूबर 2019

अधिसूचना

क्रमांक/पंचा.-307/पंचाविवि/22/2019/458. — छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1994 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1, सन् 1994) की धारा 95 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है की जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, उपसचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्रमांक एस 1-17, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 में, उप नियम (1) में, शब्द “पंचो” के पश्चात्, चिन्ह एवं शब्द “/ग्रामसभा के सदस्यों” प्रतिस्थापित किया जाये।
2. नियम 3 में, उप नियम (1) में, खण्ड (घ) एवं (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“(घ) कृषि, राजस्व तथा वन समिति — ग्राम पंचायत क्षेत्र में कृषि, भूमि विकास तथा संरक्षण, उन्नत बीज, उद्यानिकी, डेयरी, मत्स्य पालन, लघु सिंचाई, श्रम, राजस्व, बीस सूत्रीय कार्यक्रम, वन, सामाजिक वानिकी, उद्यान, लघु वनोपज का विकास तथा अन्य वानिकी कार्यक्रम;

(ङ) ग्राम गौठान समिति — ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम के पशुओं के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए गौठान का निर्माण तथा संचालन।”

3. नियम 3 में, उप नियम (2) में,—

(एक) द्वितीय परन्तुक में, पूर्ण विराम चिन्ह “।” के स्थान पर, कोलन चिन्ह “:” प्रतिस्थापित किया जाये; और

(दो) द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

“परन्तु यह और भी कि ग्राम गौठान समिति में सदस्यों की संख्या, राज्य शासन अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र कुमार शुक्ला, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 1 अक्टूबर 2019

क्रमांक/पंचा.-307/पंग्राविवि/22/2019/458. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पंचा.-307/पंग्राविवि/22/2019/458, दिनांक 01-10-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र कुमार शुक्ला, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 1st October 2019

NOTIFICATION

No./Panch.-307/PGVV/22/2019/458. — The following further draft amendment in the Chhattisgarh Gram Panchayat (Term of Office of Members of Standing Committee and Procedure for the Conduct of Business) Rules, 1994 which the State Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with Section 43 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1, of 1994), is hereby, published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person, before the specified period during office hours by the office of the Deputy Secretary, Department of Panchayat and Rural Development, Government of Chhattisgarh, Room No. S-1-17, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Nawa Raipur, Atal Nagar, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 3, in sub rule (1), after the word "Pancho", the symbol and words "/ Members of Gram Sabha" shall be substituted.
2. In rule 3, in sub rule (1), for clause (d) and (e), the following shall be substituted, namely :-

"(D) Agriculture, Revenue and Forest Committee - Agriculture, Land Development and Conservation, Improved Seeds, Horticulture, Dairy, Fisheries, Small Irrigation, Labour, Revenue, Twenty Point Program, Forest, Social Forestry, Gardening, Development of Small forest produce and other forestation program in Gram Panchayat Area.

(E) Village Gauthan Committee - Construction and operation of Gothan for the promotion and protection of animals of each village in the Gram Panchayat."

3. In rule 3, in sub rule (2),-

(i) in second proviso, for the symbol full stop "." the symbol colon ":" shall be substituted; and

(ii) after the second proviso, the following shall be added, namely :-

"Provided further also that the number of members in the Gram Gauthan Samiti will be determined by the State Government or the authority authorized by it."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA KUMAR SHUKLA, Deputy Secretary.